



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 34]

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 25, 2001/भाद्र 3, 1923

No. 34]

NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 25, 2001/BHADRA 3, 1923

इस भाग में विभिन्न सूचक संख्या दी जाती है जिससे कि वह प्रत्येक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the
Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the
Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय
(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2001

सा.का.मि. 454.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान (लेखा अधिकारी) भर्ती नियम, 1991 का संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाने है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान (लेखा अधिकारी) भर्ती (संशोधन) नियम, 2001 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान (लेखा अधिकारी) भर्ती नियम, 1991 की अनुसूची में —

(क) स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेगी, अर्थात् :—

“र. 6500-200-10500”

(ख) स्तम्भ 11 में दोनों स्थानों पर “स्थानान्तरण पर” शब्दों का लोप किया जायेगा।

(ग) स्तम्भ 12 में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेगी अर्थात् :—
“प्रतिनियुक्ति

केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :—

(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुये है, या

(ii) जिन्होंने 5500-9000 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर तीन वर्ष की नियमित सेवा की है, और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित में से कोई भी अर्हता है :—

(i) अधीनस्थ लेखा सेवा या केन्द्रीय सरकार के किसी भी संगठित लेखा विभाग द्वारा संचालित समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो।

(ii) सचिवालय प्रबंध और प्रशिक्षण संस्थान या समतुल्य में रकड़ और लेखा कार्यों में प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त किया हो और रकड़, लेखा तथा बजट कार्य का अनुभव हो।

सशस्त्र बल के कार्मिकों के लिये :—

प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन :—

लेफ्टीनेंट या समतुल्य रैंक के सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जायेगा जो एक वर्ष का अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले या रिजर्व में स्थानान्तरित किये जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के लिये विहित अर्हताएं हैं। यदि चयन कर लिये गये तो ऐसे अधिकारियों को उभयतः तत्काल प्रतिनियुक्ति के निर्बंधनों पर रखा जायेगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल में नियुक्त किया जाता है तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

यदि ऐसा पात्र अधिकारी पद पर वास्तविक चयन किये जाने से पूर्व सेवानिवृत्त या रिजर्व में स्थानान्तरित हो जाता है तो ऐसी दशा में उसकी नियुक्ति पुनर्नियोजन के आधार पर होगी।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख की 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

[फा. सं. 14034/5/99-रा. भा. (प्रशि.)]

एम. रमणन, अवर सचिव

पाद टिप्पणी :—मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उपखंड(i) में सा. का. नि. सं. 201, तारीख 30 मार्च, 1991 द्वारा प्रकाशित किये गये थे। तत्पश्चात् संशोधन सा. का. नि. 54 दिनांक 30-3-1993 द्वारा प्रकाशित किये गये थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Official Language)

New Delhi, the 9th August, 2001

G.S.R. 454.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend

the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Central Hindi Training Institute (Accounts Officer) Recruitment Rules, 1991, namely :—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Central Hindi Training Institute (Accounts Officer), Recruitment (Amendment) Rules, 2001.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Central Hindi Training Institute (Accounts Officer) Recruitment Rules, 1991, in the Schedule,

(a) In column 4, for the entry the following entry shall be substituted, namely : “Rs. 6,500—200—10,500.”

(b) In column 11, the words “transfer on” at both the places shall be omitted ;

(c) In column 12, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

“Deputation

Officers under the Central Government—

(a) (i) Holding analogous posts on regular basis ; or

(ii) with three years regular service in posts in the scale of Rs. 5,500—9,000 or equivalent ; and

(b) Possessing any of the following qualifications :—

(i) A pass in the SAS or equivalent examination conducted by any of the organised Accounts Department of the Central Government.

(ii) Successful completion of training in the Cash and Accounts work in the ISTM or equivalent and experience in Cash, Accounts and Budget work

For Armed Forces Personnel :—

Deputation/Re-Employment

Armed Forces Personnel of the rank of Lieutenant or equivalent and who are due to retire or to be transferred to reserve within a period of one year and have the qualifications prescribed for deputationists shall also be considered. If selected, such Officer will be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the armed forces, thereafter, they may be continued on re-employment terms. In case, such eligible officers have retired or have been transferred to reserve before the actual selection to be posts is made, their appointment will be on re-employment basis. (Re-employment upto the age of superannuation with reference to civil posts.)

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not ex-

ceeding 56 years as on the closing date of receipt of application)."

[File No. 14034/5/99-O.L.(Trg.)]

S. RAMANAN, Under Secy.

Footnote :—The Principal Recruitment Rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section-3, Sub-section (i) vide G.S.R. 201, dated 30th March, 1991 and subsequently amended vide G.S.R. No. 54, dated 30-03-1993.

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2001

सा.का नि. 455—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक असम राईफल्स (सहायक) भर्ती नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1 सक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—

(1) इन नियमों का सक्षिप्त नाम महानिदेशक असम राईफल्स (सहायक) भर्ती (संशोधन) नियम, 2001 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. महानिदेशक असम राईफल्स (सहायक) भर्ती नियम 1986 में विद्यमान अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जायेगी।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
1	2	3	4
सहायक	131* (2001) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' (अनुसूचिवीय) (अग्रजन्तित)	4500-125-7000 रुपये
चयन-सह-उपेक्षा या योग्यता के आधार पर चयन अथवा अचयन पद	सोचे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु सीमा	सेवा में जोड़े गये वर्गों का फायदा सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	
5	6	7	
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	
सोचे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सोचे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोत्तन व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवर्तन की अवधि, यदि कोई हो	
8	9	10	
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	

भर्ती की पद्धति . भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनिधित्व/आमेजन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनिधित्व/आमेजन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनमें प्रोन्नति/प्रतिनिधित्व/आमेजन किया जायेगा

11

100 % प्रोन्नति द्वारा

12

महानिदेशालय स्थापन में कार्यरत उच्च श्रेणी लिपिक की प्रोन्नति द्वारा जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा ।

13

14

विभागीय प्रोन्नति समिति :—

लागू नहीं होता

- (1) उप महानिदेशक असम राईफल्स—अध्यक्ष
- (2) निदेशक (प्रशा.), महानिदेशालय असम राईफल्स—सदस्य
- (3) उप आंतरिक वित्त मलाहकार, महानिदेशालय असम राईफल्स—सदस्य

[फा.सं. 145028/35/2001—प्रशा.-II]

एस.सी. सम्मैना, डैस्क अधिकारी

टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 594 तारीख 4 अगस्त, 1986 द्वारा 16 अगस्त, 1986 को प्रकाशित किये गये ।

New Delhi, the 10th August, 2001

G.S.R. 455.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Directorate General Assam Rifles (Assistant) Recruitment Rules, 1986, in the Directorate General Assam Rifles, Ministry of Home Affairs, namely:

1. (i) These rules may be called the Directorate General Assam Rifles (Assistant) Recruitment (amendment) Rules, 2001.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette of India.

2. In the Directorate General Assam Rifles (Assistant) Recruitment Rules, 1986 for the existing schedule the following schedule shall be substituted;

SCHEDULE

Name of post	Number of the post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post
1	2	3	4	5
Assistant	131* (2001) *Subject to variation depending on workload.	General Central Service Group 'C' (Ministerial) (Non-Gazetted)	Rs. 4500-125-7000/-	Not applicable

Age limit for direct recruits	Whether benefit of added year of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rule, 1972	Educational and other qualification required for direct recruits
6	7	8
Not applicable	Not applicable	Not applicable
Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any,	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
9	10	11
Not applicable	Two years	100% by promotion
In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grade from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
12	13	14
Promotion of Upper Division Clerks working in Directorate General Establishment who have rendered five years regular service in the grade.	Departmental Promotion Committee (i) Deputy Director General Assam Rifles—Chairman (ii) Director (Adm), Directorate General Assam Rifles—Members (iii) Deputy Internal Financial Adviser, Directorate General Assam Rifles—Member	Not applicable

Note : The principal Rules were published in the Gazette of India dated 15 August 1986 vide GSR No. 594 dated 04 August 1986.

[No.F. 145028/35/2001-Pers-II]

S.C. SAKSENA, Desk Officer

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2001

सा.का.नि. 456.—2001 के सा.का.नि. संख्या 150 के तहत बिनांक 17 मार्च, 2001 को भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशित इस मंत्रालय की अधिसूचना की अनुसूची के कालम 2 में दर्शाए गए वर्षों के वर्ष और पदों को संख्या को "2001" के रूप में पढ़ा जाए।

एफ संख्या 12018/3/2000-प्र. I (न)]

टी. जे. बानर्जी, सचिव सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 17th August, 2001

G.S.R. 456.—In this Ministry's Notification published in Part 2 Section 3 Sub-Section (i) of the Gazette of India dated 17th March, 2001 vide GSR No. 150 of 2001, the year in the short title and Number of Posts shown in Column 2 of the Schedule may be read as "2001".

[F. No. 12018/3/2000-Ad.I(C)]

T J. BANERJEE, Under Secy.

कार्मिक, लोक शिक्षा और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2001

सा.का.नि. 457.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये संघ लोक सेवा आयोग (सतर्कता सहायक) भर्ती नियम 1999 का और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाने हैं; अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग (सतर्कता सहायक) (संशोधन) भर्ती नियम, 2001 है।

(2) संघ लोक सेवा आयोग (सतर्कता सहायक) भर्ती नियम, 1999 की अनुसूची में—

(क) स्तम्भ 12 के अधीन—

(i) मद (आ) (ii) में "जिसका नियुक्ति के एक वर्ष के भीतर पूरा किया जाना अपेक्षित है", शब्दों का लोप किया जायेगा।

(ii) टिप्पण में, “कनिष्ठ कर्मगत अधिकारी रेक” शब्दों के पश्चात् “या समतुल्य” शब्द जोड़े जायेंगे।

(ख) स्तम्भ 13 के अधीन भद (iv) में, “उप सचिव एवं सम्पर्क अधिकारी, अनुसूचित आदि/अनुसूचित जनजाति के लिये” शब्दों का लोप किया जायेगा।

[सं 39021/2/92-स्था० (बी)]

श्रीमती प्रतिभा मोहन, निदेशक

पाद टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र के सा.का.नि. सं. 422, तारीख 25 दिसम्बर, 1999 द्वारा प्रकाशित किये गये थे।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 9th August, 2001

G.S.R. 457.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Union Public Service Commission (Vigilance Assistant) Recruitment Rules, 1999, namely :—

1. (1) These rules may be called the Union Public Service Commission (Vigilance Assistant) (Amendment) Recruitment Rules, 2001.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Union Public Service Commission (Vigilance Assistant) Recruitment Rules, 1999 :—

(a) under column 12,—

(i) in item (B) (ii) the words, “which is required to be completed within one year of appointment” shall be omitted;

(ii) in the note, after the words “rank of Junior Commissioned Officer”, the words “or equivalent” shall be added.

(b) under Column 13, in item (iv), the words “Deputy Secretary and Liaison Officer for Scheduled Castes and Scheduled Tribes—Member” shall be omitted.

[F. No. 39021/02/92-Estt.(B)]

SMT. PRATIBHA MOHAN, Director

Foot Note :—The principal rules were published in the Gazette of India vide GSR No. 422 dated the 25th December, 1999.

MINISTRY OF POWER

(Central Electricity Board)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 10th August, 2001

G.S.R. 458.—In the notification of the Ministry of Power, Central Electricity Board, G.S.R. 308 dated 30th May, 2001 published in the Gazette of India,

Part II, Section 3, Sub-section (i) dated 09-06-2001, the following corrections may be carried out :—

1. On page 1853, at Sr. No. 2, third line read “(ZZ) “increased safety ‘e’ ” in place of “(zz) “increased safety”.

2. On page 1855, at Note 2, first line read “IsC” in place of “ISC” and at second line read “IL” in place of “IL”,

3. On page 1855 at Explanation 4 read ‘guard’ in place of ‘gurad’.

4. On page 1856, at Sr. No. 8 23rd line read ‘exceed’ in place of ‘esceed’.

[No. 2/2/99/36-CEB]

JATINDER VIR, Secy.
Central Electricity Board

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2001

सा.का.नि. 459.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रादेशिक कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान गौरीपुर में चपरासी सह रात्रि प्रहरी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रादेशिक कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान गौरीपुर (चपरासी सह रात्रि प्रहरी) भर्ती नियम, 2001 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उगावड़ अनुसूची के स्तंभ 2 में स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) में स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी पत्नी के जीवित रहते हुये किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु, यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाना है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को धार्मिक स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती।

5 प्राथमिक गठन —प्रादेशिक बुगट अधिदेशन और अनुसंधान संस्थान, गौरीपुर में ऐसे व्यक्ति जा इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को नियमित आधार पर चपरासी सह राशि प्रहरी का पद धारण विये हुये है वे इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार पद नियुक्त समझे जायेगे और ऐसे प्रारंभ से पूर्व उनके द्वारा की गई नियमित सेवा प्रान्ति, पूर्ण और पेशन के लिये परीक्षा अर्थात् श्रेष्ठ सेवा के प्रयोजन के लिये मर्यादित की जायेगे।

6 शिथिल करने की शक्ति —जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिये जो कारण है उन्हें लेखबद्ध

करके, तथा नष्ट लोक सेवा शायोस से परामर्श करके इन नियमों के किमी उपबन्ध का किमी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की नाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7 धारा 11 —इस नियमों को कोई या ऐसे आरक्षण, शायु-सीमा से छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सबध में समय-समय पर निकाल लये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य रिछडे वर्गों, भतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध करना अधिकृत है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
1	2	3	4
चपरासी सह राशि प्रहरी	71 (2001) गौरीपुर के आधार पर परिचालित किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा स्तर 18 अग्रजपत्ति अनुसूचित विधायक	2550-55-2660-00- 3200 6

चपरासी सह राशि प्रहरी या योग्यता के आधार पर चपरासी अथवा अग्रजपत्ति	सबसे छोटे शायु वर्गों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अतः श्रेष्ठ है या नहीं	गौरीपुर में जाते जाते व्यक्तियों के लिए आय सीमा
--	--	---

5	6	7
लागू नहीं होता	नहीं	18 व 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिये पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)

टिप्पणी 1 —प्राप्ति-सीमा अवधारित करने के लिए निम्नलिखित तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए निम्न की गई अन्तिम तारीख होगी। (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पिति जिले तथा चम्पा जिले के बागी उपखंड, अडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए लिए ब्रिहित की गई है)।

टिप्पणी 2 —राज्य सरकार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, प्राप्ति-सीमा अवधारित करने के लिए निम्नलिखित तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक राज्य सरकार कार्यालयों में नाम भोजन के लिए कहा गया है।

सीरी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए प्रोत्सहित
शैक्षिक और अनुसंधान प्रवृत्तियाँ

सीरी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
के लिए विहित आयु और शैक्षिक
अर्हताएँ प्रोत्सहित व्यक्तियों की दशा
में लागू होगी या नहीं

8	9	10
आठवीं कक्षा उत्तीर्ण	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति भर्ती सीधे होगी या प्रोत्सहित द्वारा या प्रतिनियुक्ति/
आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों
प्रतिशतता

प्रोत्सहित/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे
श्रेणियाँ जिनमें प्रोत्सहित/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

11	12
100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता

टिप्पण पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या
अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष
या इसमें अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण
हुई रिक्तियों केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी जो
नियमित आधार पर सदन पद धारण किए हुए हैं वे
प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।

यदि विभागीय प्रोत्सहित समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में सच लोक सेवा आयोग
में परामर्श किया जाएगा।

13	14
समूह 'अ' विभागीय प्रोत्सहित समिति (पुष्टि के सवा में विचार करने के लिए) —	लागू नहीं होता

- निदेशक प्रादेशिक कठ, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान
गोरीपुर —अध्यक्ष
- मुख्य निरीक्षण अधिकारी, प्रादेशिक कठ प्रशिक्षण और
अनुसंधान संस्थान, गोरीपुर —सदस्य
- प्रशासनिक अधिकारी, प्रादेशिक कठ प्रशिक्षण और
अनुसंधान संस्थान, गोरीपुर —सदस्य
- क्षेत्र में किसी अन्य केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार
के कार्यालय में एक राजस्व अधिकारी —सदस्य

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 10th August, 2001

G.S.R. 459.- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Peon-cum-Night Watchman in the Regional Leprosy Training and Research Institute, Gouripur, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Regional Leprosy Training and Research Institute, Gouripur (Peon-cum-Night Watchman) Recruitment Rules, 2001.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification, etc.—The method of the recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Initial Constitution.—Persons holding the post of Peon-cum-Night Watchman in the Regional Leprosy Training and Research Institute, Gouripur on regular basis on the date of commencement of these rules shall be deemed to have been appointed to the post in accordance with the provisions of these rules and the regular service rendered by them before such commencement shall be counted for the purpose of probation period, qualifying service for promotion, confirmation and pension.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Caste, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection by merit or selection-cum-seniority or non-selection post
1	2	3	4	5
Peon-cum-Night Watchman	7* (2001) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Services, Group 'D', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 2550-55-2660-60-3200	Not applicable

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruitment	Educational and other qualifications required for direct recruits
6	7	8
No	Between 18—25 years (relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by Central Government.) Note 1 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh and Union Territories of Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). Note 2 : In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	8th Standard Pass

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grade from which promotion/deputation/absorption to be made
9	10	11	12
Not applicable	Two years	100% by direct recruitment Note :- Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under any other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from amongst officers of the Central Government holding an analogous post on regular basis.	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

13

14

Group 'D' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) :

Not applicable

1. Director, Regional Leprosy Training and Research Institute, Gouripur (Chairman)
2. Chief Medical Officer, Regional Leprosy Training and Research Institute, Gouripur—Member
3. Administrative Officer, Regional Leprosy Training and Research Institute, Gouripur—Member
4. A Gazetted Officer from another Central/State Government office in the area—Member

[F. No. A-12018/69/2000-Leprosy/CCD]

NITA KEJREWAL, Under Secy.

महासागर विकास विभाग

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2001

सा.का.नि. 460—दिनांक 3 मार्च, 2001 को भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित सा.का.नि. 137 के तहत महासागर विकास विभाग, भारत सरकार की अधिमूर्चना में

(i) सक्षिप्त शीर्षक में '2000' को '2001' पढ़ें और

(ii) अनुसूची के कालम 2 में '2000' को '2001' पढ़ें।

[म. टी.जे.डी/18/10/96-स्था.]

के. नारायणन, अधीक्षक सचिव

DEPARTMENT OF OCEAN DEVELOPMENT CORRIGENDUM

New Delhi, the 10th August, 2001

G.S.R. 460.—In the Notification of Government of India in the Department of Ocean Development published in Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i) vide G.S.R. 137 dated the 3rd March, 2001 :

(i) In the short title for '2000' read '2001', and

(ii) In the schedule in Column 2 for '2000' read '2001'.

[No. DOD/18/10/96-Estt.]

K. NARAYANAN, Under Secy.

नगर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2001

सा.का.नि. 461—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये और रेल सुरक्षा आयोग, संविधान कार्यालय (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियम 1988 को जहाँ तक उनका संबंध उच्च श्रेणी लिपिक और अधीक्षक श्रेणी लिपिक के पदों से है उन बातों के सिवाय अधिज्ञात करने हुये जिन्हें ऐसे अधिकरण से पहले किया गया है या करने का लोभ किया गया है, नगर विमानन मंत्रालय में रेल सुरक्षा आयोग के सकल कार्यालयों में समूह 'ग' पदों में उच्च श्रेणी लिपिक और अधीक्षक श्रेणी लिपिक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् —

1. सक्षिप्त नाम और प्रारम्भ —(1) इन नियमों का सक्षिप्त नाम रेल सुरक्षा आयोग, संविधान कार्यालय (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2001 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और विनियमन —उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके नियंत्रण में होंगे, जो इन नियमों से उपलब्ध अनुसूची के स्तर 2 से स्तर 1 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 में स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट है।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुये किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिये जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की वास्तव, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिये उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
1	2	3	4
उच्च श्रेणी लिपिक	11* (2001) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अराजपवित), अनुसचिवीय	4000-100-6000 रु.
चयन-सह-ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गये वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	
5	6	7	
चयन-सह-ज्येष्ठता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	
सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	
8	9	10	
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	

भर्ती की पद्धति भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिष्ठता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनमें प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जायेगा

11

12

प्रोन्नति (50% चयन सह ज्येष्ठता द्वारा और 50% अवर श्रेणी लिपिकों में विभागीय प्रोन्नति परीक्षा द्वारा) जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति :—ऐसे सक्रिय कार्यालय में जिसमें रिक्ति होती है के ऐसे अवर श्रेणी लिपिकों में से जिन्होंने उस श्रेणी में 8 वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण :—उच्च श्रेणी लिपिकों की 50% रिक्तियाँ सक्रिय कार्यालय में जहाँ रिक्ति हुई है कार्यरत अवर श्रेणी लिपिकों में से निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी :—

(i) चयन अवर श्रेणी लिपिक की श्रेणी पाँच वर्ष की अनुमोदित और निरंतर सेवा कर चुके अवर श्रेणी लिपिकों तक सीमित एक विभागीय परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा।

(ii) इस परीक्षा के लिये अधिकतम आयु 50 वर्ष होगी। प्रतिनियुक्ति :—केन्द्रीय सरकार के ऐसे पदधारी :—

(क) जो नियमित अधीन पद मद्रास पद धारण किये हुये हैं, या

(ख) जिन्होंने अवर श्रेणी लिपिक की श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण : 1. जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिये विचार किया जा रहा हो वहाँ उनमें ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परन्तु यह नव जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्षों में, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपनी ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिये अपनी परीक्षाओं की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण : 2. प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काष्ठ या पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा

13

14

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति,

लागू नहीं होता

(प्रतिनियुक्ति के लिये प्रोन्नति चयन के संबंध में विचार करने के लिए :—

(1) उप आयुक्त रेल संरक्षा (सामान्य) या उसकी अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा अधिकारी—अध्यक्ष

(2) उपायुक्त रेल संरक्षा जो मुख्य आयुक्त रेल संरक्षा द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा—सदस्य और

(3) अनुभाग अधिकारी रेल संरक्षा अनुभाग—सदस्य

1	2	3	4
2 अवर श्रेणी लिपिक	29* 2001 कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अग्रजर्जित), अनुसूचिवाथ	3050-75-3950-80- 1590 रु
5	6	7	
लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के मध्य टिप्पण —आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निम्नांकित तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (संविद्ध अंतिम तारीख जाग्रदम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पागो उपखंड, अदमान और निकोबार द्वीपों, लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	लागू नहीं होता	
8	9	10	
(1) मैट्रिक या समतुल्य	लागू नहीं होता	दा वर्ष	
(2) 30 शब्द प्रति मिनट की दक्षता हिन्दी या अंग्रेजी में, प्रति परन्तु यह कि			
(क) ऐसे व्यक्ति को, जिसके पास दक्षता में उक्त अर्हताएं नहीं हैं उस शर्त के अधीन रहते हुए नियुक्त किया जा सकेगा कि वह तब तक रैशन-मान से वेतन वृद्धि प्राप्त करने के लिए या स्थायीत्व के लिए या उस श्रेणी में पुराई के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वह दक्षता में प्रति-मिनट 30 शब्द की गति प्राप्त नहीं कर लेता है और			
(ख) शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त ऐसे व्यक्ति को, जो जो लिपिकीय पद प्राप्ति करने के लिए अर्हता ग्रहित है, किन्तु उसके पास दक्षता में उक्त अर्हता नहीं है, इस शर्त के अधीन रहते हुए नियुक्त किया जा सकेगा कि असुविधाग्रस्त व्यक्तियों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय से सलग्न चिकित्सा बोर्ड या जहाँ-जहाँ बोर्ड नहीं है वहाँ सिविल सर्जन यह प्रमाणित कर देता है कि उक्त असुविधाग्रस्त व्यक्ति दक्षता में उक्त कर सकते हैं योग्य नहीं है।			

11

12

सीधी भर्ती द्वारा जिसके तहो सकने पर आमेलन द्वारा

आमेलन :

टिप्पण : अवर श्रेणी लिपिक के पदों की 10 प्रतिगत रिक्तियां सकल कार्यालय जहां रिक्ति हुई है के समूह 'घ' में सेवारत कर्मचारियों से निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार भरी जाएगी :—

अवर केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से सनका या समतुल्य श्रेणी में सेवारत अवर श्रेणी लिपिक।

- (1) चयन, समूह 'घ' के कर्मचारियों जो निम्नतम शैक्षिक अर्हता, अर्थात् मैट्रिक या समतुल्य पूरा करते हैं विभागीय परीक्षा के माध्यम से नियत किया जाएगा।
- (2) परीक्षा के लिए अधिकतम आयुसीमा 40 वर्ष होगी (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए 45 वर्ष), और
- (3) समूह 'घ' में निम्नतम पांच वर्ष की नियमित सेवा आवश्यक होगी।

13

14

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि और आमेलन के लिए) :—

सागू नहीं होगा

- (1) उप आयुक्त रेल संरक्षा (सामान्य) या उसकी अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा अधिकारी —अध्यक्ष
- (2) रेल संरक्षा उपायुक्त जो मुख्य आयुक्त रेल संरक्षा द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा और —सदस्य
- (3) अनुभाग अधिकारी, रेल संरक्षा अनुभाग —सदस्य

[सं. ग-12018/6/01-आर. एस.]

प्रकाश चन्द्र, उप सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 13th August, 2001

G.S.R. 461.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution and in supersession of the Commission of Railway Safety, Circle Offices (Group 'C' and Group 'D' Posts) Recruitment Rules, 1988, in so far as they relate to the posts of Upper Division Clerk and Lower Division Clerk, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'C' posts of Upper Division Clerk and Lower Division Clerk in Circle Offices of the Commission of Railway Safety in the Ministry of Civil Aviation, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Commission of Railway Safety, Circle Offices (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2001.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualifications.—No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so

to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limits and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Castes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection-cum-seniority or selection by merit or non-selection post
1	2	3	4	5
1. Upper Division Clerk	11* 2001	General Central Service, Group 'C'; Non-Gazetted, Ministerial	Rs. 4,000-100-6,000/-	Selection-cum seniority
*Subject to variation dependent on workload.				
Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972		Educational and other qualifications required for direct recruits	
6	7		8	
Not applicable	Not applicable		Not applicable	
Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in case of promotees		Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	
9		10	11	
Not applicable		Not applicable	Promotion (50% by selection cum seniority and 50% by limited departmental examination from Lower Division Clerks) failing which by deputation.	
In the case of recruitment by promotion/deputation/ absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made		If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment	
12		13	14	
PROMOTION : Lower Division Clerk serving in the Circle Office where the vacancy occurs with a minimum eight years of regular service in the grade. Note : 50% of vacancies in the post of Upper Division Clerks will be filled from amongst		Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and selection for deputation) : (i) Deputy Commissioner of Railway Safety (General) and in his absence, officer performing his duties — Chairman.	Not applicable	

12

13

14

Lower Division Clerks working in the circle office where vacancy occurs as per following procedure—

- (i) selection shall be made through a Departmental examination confined to Lower Division Clerks with minimum of approved and continuous service of five years in Lower Division Clerks Grade;
- (ii) the maximum age for this examination shall be 50 years.

(ii) Deputy Commissioner of Railway Safety nominated by the Chief Commissioner Railway Safety—Member.

(iii) Section Officer, Railway Safety Section—Member.

DEPUTATION :

Officials of Central Government :

(a) holding analogous post on regular basis;

or

(b) Lower Division Clerks with eight years regular service in the grade.

Note : 1—Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service

Note : 2—The period of deputation including period of deputation in another post held immediately preceeding this appointment in the same or some other Organisation/ Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on closing date of receipt of applications.

1	2	3	4	5
2. Lower Division Clerk	*29 2001 *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Rs. 3050-75-3950-80-4590	Not applicable

6

7

8

Between 18 to 27 years

Not applicable

- (1) Matriculation or equivalent;
- (2) A speed of 30 words per minute in typing (English or Hindi) provided that :
(a) a person not possessing the said quali-

Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and

6

not the closing date prescribed for those in Aassm, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep).

8

cation may be appointed subject to condition that he shall not be eligible for drawing increments in the pay scale or for confirmation in the grade till he/she acquires a speed of 30 words per minute in typing, or

- (b) a physically handicapped person who is otherwise qualified to hold a clerical post but does not possess the said qualification in typing may be appointed subject to the condition that the Medical Board attached to the special Employment Exchange for the handicapped or where there is no such Board, the Chief Medical Officer, certifies that the said handicapped persons not in a fit condition to be able to type.

9

Not applicable

10

Two years

11

Direct recruitment failing which by absorption.

Note : 10% of vacancies in the post of Lower Division Clerks shall be filled from amongst Group 'D' employees working in the circle office where vacancy occurs as per following procedure :

- (i) Selection shall be made through a Departmental Examination confined to such Group 'D' employees who fulfil the requirement of minimum educational qualification, namely matriculation or equivalent;
- (ii) the maximum age for this Departmental Examination shall be 40 years (45 years for Scheduled Cast/Scheduled Tribe employees); and
- (iii) minimum of five years regular service in a Group 'D' post shall be essential.

12

Absorption :

Lower Division Clerk working in a similar or equivalent grade from other Central Government offices

13

Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation and selection for absorption) :

- (i) Deputy Commissioner of Railway Safety (General) and in his absence, officer performing his duties—Chairman.
- (ii) Deputy Commissioner of Railway Safety nominated by the Chief Commissioner of Railway Safety—Member.
- (iii) Section Officer, Railway Safety Section—Member.

14

Not applicable

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)
(भारत मौसम विज्ञान विभाग)
नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2001

सा. का. नि. 462—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हूँ, भारत मौसम विज्ञान विभाग यांत्रिकी काडर (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1999 का और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाने हैं, अर्थात् —

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत मौसम विज्ञान विभाग यांत्रिकी काडर भर्ती (प्रथम संशोधन) नियम, 2001 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारत मौसम विज्ञान विभाग यांत्रिकी काडर भर्ती नियम, 2000 की अनुसूची में—

मैकेनिक श्रेणी-II (औद्योगिक) के पद में संबंधित क्रम संख्या 8 के सामने स्तंभ 8 में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात् —

1. मैट्रिकुलेशन या इसके समतुल्य उत्तीर्ण या 10+2 पद्धति के अधीन 10वीं उत्तीर्ण।

2. (1) किसी मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से किसी इजीनियरी व्यवसाय में शिल्पकारी में दो वर्ष का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम होना चाहिये।

(2) व्यवसायियों जैसे सांचागार या वैल्डर या शीट धातु वर्कर की दशा में शिल्पकारी व्यवसाय में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम और किसी मान्यताप्राप्त कर्मशाला में तीन वर्ष का व्यवहारिक अनुभव।

मैकेनिक श्रेणी-II (अनौद्योगिक) के पद में संबंधित क्रम संख्या 9 के सामने स्तंभ 8 में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात् —

1. विज्ञान सहित मैट्रिकुलेशन या इसके समतुल्य या 10+2 पद्धति के अधीन विज्ञान सहित 10वीं उत्तीर्ण।

2. (1) किसी मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से किसी इजीनियरी व्यवसाय में शिल्पकारी में दो वर्षीय प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम होना चाहिये।

स्तंभ 12 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेगी, अर्थात् —

प्रोन्नति — जेमे मैट्रिक्स (अनौद्योगिक) जिन्होंने 2650-65-3300-70-4000 रु की श्रेणी में चार वर्ष सेवा की है नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर व्यवसाय प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने के अध्याधीन और 2610-60-3150-65-3540 रु की श्रेणी में छह वर्ष सेवा की है।

[स. ई. (3) 109/03/(आर आर)/99]

जे. एम. आर्य, उपासहानिदेशक, मौसम विज्ञान विभाग
(प्रणामन और भंडार)

पाद टिप्पण — गुल नियम भारत के राजपत्र के भाग II खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना स. सा. का. नि. 391 तारीख 7-10-2000 द्वारा पृष्ठ संख्या 2977 में 3006 पर प्रकाशित किया गया।

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Science and Technology)

(INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT)

New Delhi, the 9th August, 2001

G.S.R. 462.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules, further to amend the Ministry of Science and Technology (India Meteorological Department) (Group 'C' posts), Mechanical Cadres Recruitment Rules, 1999

1. (1) These rules may be called the Ministry of Science and Technology (India Meteorological Department) (Group 'C' posts) Mechanical Cadres Recruitment (Amendment) Rules, 2001.

(2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

2. In the Schedule to the India Meteorological Department Mechanical cadres Recruitment Rules, 2000 :—

Against serial number 8 relating to the post of Mech. Gr. II (Industrial) in Column 8 for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

1. Passed Matriculation or its equivalent or 10th pass under 10+2 System.

2.(i) Should possess two years Certificate Course in Craftsmanship in an Engineering Trade from a recognised Industrial Training Institute.

(ii) In the case of trades like Moulder or Welder or Sheet Metal Worker a Certificate Course in Craftsmanship in the trade and three years practical experience from a recognised workshop.

Against serial number 9 relating to the post of Mech. Gr. II (Non-Industrial) in Column 8, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

1. Passed Matriculation with Science or its equivalent or 10th pass with Science under 10+2 System.

2.(i) Should possess two years Certificate Course in Craftsmanship in an Engineering trade

from a recognised Industrial Training Institute.

on regular basis and subject to passing qualifying trade test.

In Column No. 12 of the entry the following entry shall be substituted, namely :—

[No. E(3)109/03/RR/99]

Promotion : Mates (Non-Industrial) with four years service in the grade of 2650-65-3300-70-4000 or six years regular service in the grade of Rs. 2610-60-3150-65-3540 rendered after appointment thereto

J. S. ARYA, Dy. Director General of Meteorology
(Administration and Stores)

Foot Note:—Principal rules published vide notification No. GSR 391, dated 7-10-2000 Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) on pages 2977 to 3006.